



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 30 जून, 2020

आषाढ़ 9, 1942 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या 806/52-2-2020-6-96टी०सी०-4

लखनऊ, 30 जून, 2020

अधिसूचना

प०आ०-137

डा० मो० नसीर हसन, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, रूधौली, जिला बस्ती की उ० प्र० शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर की गयी प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर उन्हें उनके मूल विभाग के लिये वापस किये जाने विषयक शासन की अधिसूचना संख्या 634/52-2-2020, दिनांक 17 जून, 2020 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। डा० मो० नसीर हसन उ० प्र० शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पूर्व की भाँति प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,  
मनोज सिंह,  
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 92 राजपत्र-2020-(188)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2020-(189)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।